



उत्तराखण्ड विद्युत नियामक आयोग

प्रेस विज्ञप्ति

दिनांक: 11.04.2025

पिटकुल हेतु बहुवर्षीय टैरिफ आदेश – वित्तीय वर्ष 2025–26 से वित्तीय वर्ष 2027–28 मुख्य बिन्दु

- पिटकुल (PTCUL) द्वारा पांचवी नियंत्रण अवधि (Fifth Control Period) के लिए वित्तीय वर्ष 2025–26 से वित्तीय वर्ष 2027–28 तक के लिए व्यवसाय योजना और वित्तीय वर्ष 2025–26 से वित्तीय वर्ष 2027–28 तक बहु वर्षीय टैरिफ योजना के साथ वित्तीय वर्ष 2023–24 हेतु सहीकरण (truing up) के अनुमोदन के लिए ने 27 नवंबर, 2024 को आयोग के समक्ष पीटिशन प्रस्तुत की गई।
- तदनुसार आयोग द्वारा इस टैरिफ आदेश में निम्न अनुमोदन किये गये हैं :—
 - वित्तीय वर्ष 2023–24 हेतु सहीकरण (truing up) के अनुमोदन।
 - पांचवी नियंत्रण अवधि (Fifth Control Period) के लिए वित्तीय वर्ष 2025–26 से वित्तीय वर्ष 2027–28 तक के लिए व्यवसाय योजना का अनुमोदन।
 - वित्तीय वर्ष 2025–26 से वित्तीय वर्ष 2027–28 तक वार्षिक पारेषण प्रभार का निर्धारण।
- पिटकुल द्वारा वित्तीय वर्ष 2023–24 के सहीकरण (truing up) हेतु ₹0 105.73 करोड़ की धनराशि का अन्तर (Gap) दर्शाया गया था, जिसके सापेक्ष आयोग द्वारा ₹0 28.58 करोड़ का अन्तर (Gap) अनुमोदित किया गया है।
- पिटकुल द्वारा वित्तीय वर्ष 2025–26 के लिये प्रस्तावित वार्षिक पारेषण प्रभार तथा आयोग द्वारा अनुमोदित की गयी प्रतिशत वृद्धि निम्न तालिका में दर्शायी गयी है:—

तालिका : वार्षिक पारेषण प्रभार (ATC) (₹0 करोड़)

विवरण	वित्तीय वर्ष 2024–25	वित्तीय वर्ष 2025–26	
	टैरिफ आदेश में अनुमोदित	प्रस्तावित	अनुमोदित
पिटकुल (ATC)	408.69	538.21	432.50
विगत वर्षों का सहीकरण का प्रभाव वहन लागत सहित	-44.32	-	35.87
कुल	364.37	538.21	468.38
गतवर्ष की तुलना में वृद्धि (%में)	-		28.5%

- पिटकुल द्वारा वित्तीय वर्ष 2025–26 के लिये वार्षिक पारेषण प्रभार के अतिरिक्त ₹0 301.40 करोड़ की प्रारम्भिक इक्विटी के लिए लाभांश (Return on Equity) एवं ₹0 771.40 करोड़ की धनराशि पॉवर

डेवलपमेन्ट फण्ड से निवेश के रूप में इक्विटी के लिए लाभांश (Return on Equity) के तौर पर प्रस्तावित की गयी।

- APTEL ने UJVN Ltd. के मामले में दिनांक 19.07.2024 के अपने निर्णय (अपील संख्या 215 of 2016, अपील संख्या 283 of 2016 और अपील संख्या 139 of 2018) के माध्यम से पावर डेवलपमेन्ट फंड (PDF) से निवेश की गई इक्विटी पर RoE (इक्विटी के लिए लाभांश) की अनुमति दी है। परिणामस्वरूप, आयोग ने PTCUL पूंजीगत व्यय योजनाओं के मामले में PDF से निवेश की गई इक्विटी पर RoE की गणना की है। वित्तीय वर्ष 2004–05 से वित्तीय वर्ष 2022–23 तक कुल प्रभाव 235.69 करोड़ रुपये है।
- चूंकि इसका प्रभाव काफी अधिक था, इसलिए फुटकर (Retail) उपभोक्ताओं के टैरिफ पर पड़ने वाले भारी प्रभाव को रोकने के लिए आयोग ने टैरिफ नीति के Clause - 8.2.2 के अनुरूप तीन वर्षों में कुल वसूली को 78.56 करोड़ रुपये की वार्षिक किस्त के साथ समाप्त किया गया।
